

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2022	2023		घट-बढ़	
	मार्च 25	मार्च 17	मार्च 24 #	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3107652	3342301	3350425	8124	242773
1.1 संचलन में नोट	3107637	3342288	3350412	8124	242775
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	13	13	0	-2
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना					
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	1	1
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	683437	835042	809907	-25135	126470
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7123	7436	7332	-105	209
2.6 अन्य बैंक	41710	50443	50554	111	8844
2.7 अन्य	1062162	472020	472716	696	-589445
3 अन्य देयताएं	1359254	1573416	1627193	53777	267939
कुल देयताएं / आस्तियां	6261480	6280801	6318270	37469	56790
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4222780	4197882	4231415	33532	8635
2 सोना	329562	364051	375117	11066	45556
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1488978	1401470	1405521	4051	-83457
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	-	-	-	-
4.2 राज्य सरकारें	670	8189	7625	-564	6954
4.3 नाबार्ड	24927	0	0	0	-24927
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	94299	179260	165085	-14175	70785
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	80818	109609	111604	1994	30786
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	17382	18276	19841	1565	2459

* डाटा अंतिम है।

शुक्रवार, 31 मार्च 2023 से संबंधित आंकड़े मई 2023 में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र के एक भाग के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	मार्च 31, 2023 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2022 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4754265	578449	-19385	-329	155446	-28860	161760	-28026
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4189132	509691	-15112	-36	94567	-31032	102115	-30036
1.2 स्वर्ण	371500	45200	-3618	-279	49286	2649	47903	2467
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151164	18392	-759	-27	8112	-499	8204	-487
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	42468	5165	104	14	3480	22	3537	30

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अप्रैल 07, 2023 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹822103 करोड़	2023													
	मार्च 25	मार्च 26	मार्च 27	मार्च 28	मार्च 29	मार्च 30	मार्च 31	अप्रैल 1	अप्रैल 2	अप्रैल 3	अप्रैल 4	अप्रैल 5	अप्रैल 6	अप्रैल 7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	800988	799008	839533	833311	843880	832702	868940							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	97.4	97.2	102.1	101.4	102.6	101.3	105.7							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	मार्च 24, 2023 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2021-22	2022-23	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	226121	7421	-5296	35552	-5296	35552
1.2 बैंकों से उधार	67199	-14342	-2563	28882	-2563	28882
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	58470	-714	11919	28708	11919	28708
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	18043706	85383	1351801	1578393	1351801	1578393
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	8.9	9.6	8.9	9.6
2.1.1 मांग	2180402	61249	211554	107655	211554	107655
2.1.2 मीयादी	15863305	24134	1140247	1470738	1140247	1470738
2.2 उधारियां	445329	-6011	30569	170735	30569	170735
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	788212	-19890	-15759	147364	-15759	147364
3 रिज़र्व बैंक से उधार	165085	-12111	4025	70785	4025	70785
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	900170	-14178	135922	130807	135922	130807
4.1 उपलब्ध नकदी	90263	-13383	-4822	4337	-4822	4337
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	809907	-795	140744	126470	140744	126470
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	193410	829	20946	29170	20946	29170
5.2 मांग और अन्य सूचना पर प्राप्य राशि	24042	7680	-3672	17060	-3672	17060
5.3 बैंकों को अग्रिम	41184	1548	19038	5383	19038	5383
5.4 अन्य आस्तियां	67952	1223	9784	31339	9784	31339
6 निवेश	5415148	28644	266422	686200	266422	686200
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	6.0	14.5	6.0	14.5
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	5414322	28665	266547	686143	266547	686143
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	826	-21	-125	58	-125	58
7 बैंक ऋण*	13675228	126635	1044027	1783913	1044027	1783913
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	9.6	15.0	9.6	15.0
7 क.1 खाद्य ऋण	19906	-8373	-6244	-35105	-6244	-35105
7 क.2 खाद्योत्तर ऋण	13655322	135008	1050270	1819018	1050270	1819018
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	13425606	118700	1017067	1774269	1017067	1774269
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	39435	1116	5524	3380	5524	3380
7 ख.3 भुनाए गए	162432	4658	26328	8221	26328	8221
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	19543	1696	-1237	386	-1237	386
7 ख.5 भुनाए गए	28212	464	-3656	-2342	-3656	-2342

*3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक बैंक ऋण वृद्धि और सभी पखवाड़ों के संबंधित बदलाव को चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के संबंध में समायोजित किया जाता है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2022	2023				
	अप्रैल 1	मार्च 3	मार्च 10	मार्च 17	मार्च 24	मार्च 31
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	5.09	..	4.99	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	75.44	..	75.79	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	111.00	..	113.02	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	29.99	..	30.01	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	44.04	..	43.47	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	4.00	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ) दर *	..	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	4.25	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
बैंक दर	4.25	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
आधार दर	7.25/8.80	8.65/9.40	8.65/9.40	8.65/10.10	8.65/10.10	8.65/10.10
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	6.45/7.00	7.50/8.50	7.50/8.50	7.50/8.50	7.50/8.50	7.50/8.50
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	5.00/5.60	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत में औसत)	3.34	6.47	6.32	6.42	6.61	6.78
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.84	6.94	6.97	6.86	6.74	..
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.27	7.30	7.38	7.27	7.23	7.28
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.58	7.39	7.48	7.31	7.24	7.31
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.86	7.40	7.42	7.35	7.32	7.31
एफबीआईएल® संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पोर्ट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	75.81	82.26	82.01	82.47	82.24	82.22
भारतीय रुपया-यूरो स्पोर्ट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.66	87.32	86.84	87.81	89.06	89.61
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.90	2.63	2.93	2.91	2.92	2.41
3-माह	3.89	2.46	2.46	2.52	2.43	2.19
6-माह	3.84	2.25	2.27	2.39	2.40	2.31

* प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2022	2023	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2021-22		2022-23		2022		2023	
	मार्च 31	मार्च 24	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	20493729	22333020	109298	0.5	1645020	8.7	1839290	9.0	1640146	8.7	1843422	9.0
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3035689	3278334	20241	0.6	285793	10.4	242645	8.0	280917	10.2	240712	7.9
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2212992	2320569	61718	2.7	217872	10.9	107577	4.9	217872	10.9	107577	4.9
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	15186605	16668787	26272	0.2	1136326	8.1	1482183	9.8	1136326	8.1	1482183	9.8
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	58444	65330	1068	1.7	5028	10.6	6886	11.8	5032	10.6	12951	24.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	6477629	6916058	-63938	-0.9	353837	6.0	438429	6.8	471460	8.2	711847	11.5
2.1.1 रिजर्व बैंक	1450596	1201651	-89650	-6.9	77493		-248946		195116		24472	
2.1.2 अन्य बैंक	5027033	5714407	25711	0.5	276344	5.8	687374	13.7	276344	5.8	687374	13.7
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	12616520	14423476	129944	0.9	941576	8.1	1806955	14.3	1043982	9.0	1813434	14.4
2.2.1 रिजर्व बैंक	16571	20396	1677		1383		3826		1568		10304	
2.2.2 अन्य बैंक	12599950	14403079	128267	0.9	940192	8.1	1803130	14.3	1042414	9.0	1803130	14.3
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4854063	4862273	176617	3.8	384237	8.4	8210	0.2	402184	8.8	-100810	-2.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	28013	30007	0	0	1100	4.1	1994	7.1	1100	4.1	1994	7.1
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3482496	3898793	133324	3.5	35730	1.1	416297	12.0	278580	9.2	583042	17.6
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1308500	1612360	161850	11.2	-9700	-0.7	303860	23.2	15003	1.1	265400	19.7

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2022	2023	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2021-22		2022-23		2022		2023	
	मार्च 31	मार्च 24*	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4068887	4313542	-17564	-0.4	320317	8.9	244655	6.0	430065	12.3	393243	10.0
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3133716	3380418	8124	0.2	281886	9.9	246702	7.9	277009	9.7	244769	7.8
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	876726	867793	-25128	-2.8	33403	4.8	-8933	-1.0	148024	25.3	135523	18.5
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	58444	65330	-560	-0.8	5028	10.6	6886	11.8	5032	10.6	12951	24.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1450596	1201651	36209		77493		-248946		195116		24472	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1448972	1194069	36774		80205		-254903		196120		17518	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-543702	87564	-45988		-120075		631265		-121195		576996	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-560272	67168	-45451		-121458		627440		-122763		566692	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4442479	4606680	44425	1.0	352099	8.4	164201	3.7	370047	8.8	55181	1.2
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	28013	30007			1100	4.1	1994	7.1	1100	4.1	1994	7.1
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1308500	1612360	52211	3.3	-9700	-0.7	303860	23.2	15003	1.1	265400	19.7

* शुक्रवार, 31 मार्च 2023 से संबंधित आंकड़े मई 2023 में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के तुलनपत्र के एक भाग के रूप में प्रकाशित किए जाएंगे।

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		7	8	
मार्च 27, 2023	—	—	—	—	900	103238	456	—	—	-101882
मार्च 28, 2023	—	—	—	—	623	162609	490	—	—	-161496
मार्च 29, 2023	—	—	—	—	23489	154737	1188	—	—	-130060
मार्च 30, 2023	—	—	—	—	9147	78265	—	—	—	-69118
मार्च 31, 2023	—	—	—	—	31995	233723	3900	—	—	-197828
अप्रैल 1, 2023	—	—	—	—	143	10721	—	—	—	-10578
अप्रैल 2, 2023	—	—	—	—	417	38017	—	—	—	-37600

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा

अप्रैल 7, 2023

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2022		2023		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	जनवरी	फरवरी	जनवरी	फरवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च - अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	165.7	166.1	176.5	176.8	0.2	5.4	6.4
1.1 ग्रामीण	166.4	166.7	177.8	177.9	0.1	5.5	6.7
1.2 शहरी	165.0	165.5	174.9	175.6	0.4	5.5	6.1
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	125.1	125.0	132.8	132.7	- 0.1	5.3	6.2
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	143.8	145.3	150.6	150.9	0.2	1.3	3.9
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	167.5	167.5	174.0	173.0	- 0.6	1.2	3.3
3.2 ईंधन और बिजली	135.3	138.3	155.8	158.8	1.9	10.4	14.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	137.2	138.9	141.3	141.6	0.2	- 0.5	1.9

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 10, 2023	290353	45369	7.28 - 8.05
मार्च 24, 2023	304521	40358	7.07 - 7.80

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
मार्च 15, 2023	371327	65489	6.92 - 10.78
मार्च 31, 2023	353688	61469	6.88 - 12.67

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अप्रैल 1, 2022	मार्च 24, 2023	मार्च 31, 2023
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	19325	23713	23318
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	866	459	1645
3 त्रिपक्षीय रेपो	703445	514966	673254
4 बाजार रेपो	456559	563292	740470
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	57	2289	2854

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

मार्च 31, 2023 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	8724	20071	8038	117285
182-दिवसीय	67606	97274	2592	277213
364-दिवसीय	105646	146080	48284	448836
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2022-23 (मार्च 31, 2023 तक)	2022-23 (अप्रैल 1, 2022 तक)	2021-22	2022-23 (मार्च 31, 2023 तक)	2022-23 (अप्रैल 1, 2022 तक)	2021-22
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1421000	-	1127382	1108261	-	863103
2. राज्य सरकारें	758392	-	701626	518829	-	492483

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका (www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15762) में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री जी. वि. नथनएल, निदेशक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।